



# दिल्ली में नकली टाटा नमक की फैक्ट्री व बेच दिए 10 हजार किलो

लाकडाउन में एक टैक्सी ड्राइवर की आर्थिक हालत खराब हो गई तो उसने नकली टाटा नमक बड़ी सफाई से नकली टाटा नमक को असली रूप में तैयार किया जाता था. लाकडाउन टाटा नमक बेच भी दिया गया.



फैक्ट्री में छापेमारी में बरामद हुई यह नकली टाटा नमक की खेप (फोटो-अरविंद)

[Hindi News/खबरें/कोरोना](#) | अरविंद ओझा | नई दिल्ली, 03 जुल

- लाकडाउन में एक टैक्सी ड्राइवर ने बनाई नकली फैक्ट्री
- टाटा नमक जैसी पैकेजिंग, नकली QR कोड छापे गए थे
- मुख्य आरोपी सुरलजम सिंघल समेत दो आरोपी गिरफ्तार

पिछले 4 महीने से दिल्ली समेत पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन बाजार से बाज नहीं आ रहे. राजधानी में नकली टाटा नमक बनाने वाली फैक्ट्री का भांडा नकली नमक के साथ-साथ मशीन भी बरामद हुई है.

लाकडाउन के दौर में जब लोग घरों में रहने को मजबूर थे तो इस दौरान फर्जीवा नमक दिल्ली में बेच चुके थे. बरामद नकली पैकेट को देखकर पहचान कर पान

## छापेमारी में नकली चीजें बरामद

दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके की दुकानों में छापेमारी कर नकली टाटा नमक व में भी फैक्ट्री पर छापा मार बाकी बचे नकली टाटा नमक बरामद किया गया.

नकली टाटा नमक बेचने के मुख्य आरोपी सुरलजम सिंघल समेत दो आरोपी वि DIU युनिट ने यह नकली टाटा नमक बरामद किया.

फैक्ट्री में बनाया जा रहा नकली टाटा नमक

लाकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में अब तक करीब 10 हजार किलो नकली